

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023—वैशाख 20, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र. एफ 10-06-2022-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, “मध्यप्रदेश गौरव सम्मान” वर्ष 2022 हेतु निम्न व्यक्तियों / शासकीय कार्यालय / संस्था को उनके सम्मुख दर्शाये गए क्षेत्र में उल्लेखनीय / उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति / संस्था का नाम (2)	क्षेत्र (3)
1	नर्मदा समग्र, भोपाल	पर्यावरण एवं जल संरक्षण
2	हॉक फोर्स	वीरता पूर्ण कार्य
3	मध्यप्रदेश गायत्री परिवार	सामाजिक सुधार
4	सेवा भारती, मध्य भारत	महिलाओं एवं बच्चों का विकास
5	श्री विजय मनोहर तिवारी	जनभागीदारी / सामुदायिक प्रबंधन
6	56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन, इंदौर	जनभागीदारी / सामुदायिक प्रबंधन
7	सरस्वती शिक्षा परिषद्	शिक्षा
8	सुश्री रूबिना फ्रांसिस	खेलकूद
9	आइर्नॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमि.	स्वास्थ्य एवं पोषण
10	श्री विनायक लोहानी	स्वास्थ्य एवं पोषण
11	आरूषी, भोपाल	जनसेवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.